



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 282] नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 1980/आषाढ़ 9, 1902
No. 282] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 1980/ASADHA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 1980

का० आ० 482(अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की
धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा जिसमें राज्य सभा में रिक्त स्थान को भरने के
लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जा रही है :—

घोषणा

महाराष्ट्र विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप नियम (1) के साथ पठित,
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों
के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

भण्डारे, श्री मुरलीधर चन्द्रकान्त,

352, गीरगांव,

(जगन्नाथ शंकर सेट्ट मार्ग)

मुम्बई-400002.

उस सदन में श्री वी० एन० गाडगिल के रिक्त हो गए स्थान को भरने के लिए सम्पर्क से निर्वाचित हो गए हैं ।

काउंसिल हाल,

मुम्बई-400039

तारीख 27 जून, 1980.

ह०/-

रिटर्निंग आफिसर

[सं० फा० 13(38)/80-विभा० II]

आर० वी० एस० पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 1980

S.O. 482(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information :—

DECLARATION

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Maharashtra

“In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951 read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant,

352, Girgaon,

(Jagannath Sunker Sett Road),

Bombay-400002.

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by reason of the seat of Shri V. N. Gadgil having become vacant.

Council Hall,

Bombay-400039.

Dated the 27th June, 1980.



Sd/-

Returning Officer”

[No. F. 13(38)/80-Leg. II]

R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

